



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 चैत्र 1941 (श10)
(सं0 पटना 512) पटना, मंगलवार, 2 अप्रैल 2019

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना
2 अप्रैल 2019

सं0 एम०-1-009/2019-19—लोक सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर 14-दरभंगा, 22-उजियारपुर, 23-समस्तीपुर(अ०जा०), 24-बेगूसराय एवं 28-मुंगेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 02.04.2019 एवं भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-464/ईपीएस/2019(4) दिनांक 02.04.2019 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रवीण कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव -सह-
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2 अप्रैल, 2019/ चैत्र 12, 1941 (शक)

का0आ0.....(अ).--सोलहवीं लोक सभा की अवधि के अवसान पर नई लोक सभा का गठन करने के प्रयोजन के लिए सधारण निर्वाचन कराने का विनिश्चय किया गया है; अतः, अब, राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा (2) के अनुसरण में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचनों क्षेत्रों, जो उक्त सारणी के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट तत्स्थानी बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित हैं, से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों तथा किए गए आदेशों के अनुसार सदस्यों का निर्वाचन कराने की अपेक्षा करते हैं :-

राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(1)	(2)
बिहार	14-दरभंगा
	22-उजियारपुर
	23-समस्तीपुर (अ.जा.)
	24-बेगूसराय
	28-मुंगेर
झारखंड	4-चतरा
	12-लोहरदगा (अ.ज.जा.)
	13-पलामू (अ.जा.)
मध्य प्रदेश	11-सीधी
	12-शहडोल (अ.ज.जा.)
	13-जबलपुर
	14-मण्डला (अ.ज.जा.)
	15-बालाघाट
	16-छिन्दवाड़ा
महाराष्ट्र	1-नन्दुरबार (अ.ज.जा.)
	2-धुले
	20-दिन्डोरी (अ.ज.जा.)
	21-नाशिक
	22-पालघर (अ.ज.जा.)
	23-भिवंडी
	24-कल्याण

राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(1)	(2)
महाराष्ट्र	25-ठाणे
	26-मुम्बई उत्तर
	27-मुम्बई उत्तर-पश्चिम
	28-मुम्बई उत्तर-पूर्व
	29-मुम्बई उत्तर-मध्य
	30-मुम्बई दक्षिण-मध्य
	31-मुम्बई दक्षिण
	33-मावल
	36-शिरूर
	38-शिरडी (अ.जा.)
ओडिशा	5-मयूरभंज (अ.ज.जा.)
	6-बालासोर
	7-भाद्रक (अ.जा.)
	8-जाजपुर (अ.जा.)
	15-केन्द्रपाड़ा
	16-जगतसिंहपुर(अ.जा.)
राजस्थान	12-टोंक सवाई-माधोपुर
	13-अजमेर
	15-पाली
	16-जोधपुर
	17-बाड़मेर
	18-जालोर
	19-उदयपुर (अ.ज.जा.)
	20-बांसवाड़ा (अ.ज.जा.)
	21-चित्तौड़गढ़
	22-राजसमन्द
	23-भीलवाड़ा
	24-कोटा
	25-झालावाड़-बारां
उत्तर प्रदेश	27-शाहजहांपुर (अ.जा.)
	28-खीरी
	31-हरदोई (अ.जा.)
	32-मिश्रिख (अ.जा.)
	33-उन्नाव

राज्य	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
(1)	(2)
उत्तर प्रदेश	40-फर्रुखाबाद
	41-इटावा (अ.जा.)
	42-कन्नौज
	43-कानपुर
	44-अकबरपुर
	45-जालौन (अ.जा.)
	46-झांसी
	47-हमीरपुर
पश्चिम बंगाल	10-बहरामपुर
	12-कृष्णानगर
	13-रणघाट (अ.जा.)
	38-बर्धमानपूर्व (अ.जा.)
	39-बर्धमान दुर्गापुर
	40-आसनसोल
	41-बोलपुर (अ.जा.)
	42-बीरभूम

[फा0सं0 एच-11024(1)/2019-वि.2]

(डा. रीटा वशिष्ट)

अपर सचिव, भारत सरकार ।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2019/Chaitra 12, 1941 (SAKA).

S.O. (E).— Whereas it has been decided to hold a general election for the purpose of constituting a new House of the People, on the expiration of the term of Sixteenth House of the People;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the Parliamentary constituencies, specified, in column (2) of the Table given below comprised within the corresponding States of Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal as specified in column (1) of the said Table, to elect the Members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder:

STATE	PARLIAMENTARY CONSTITUENCY
(1)	(2)
BIHAR	14-Darbhanga
	22-Ujiarpur
	23-Samastipur (SC)
	24-Begusarai
	28-Munger
JHARKHAND	4-Chatra
	12-Lohardaga (ST)
	13-Palamu (SC)
MADHYA PRADESH	11-Sidhi
	12-Shahdol (ST)
	13-Jabalpur
	14-Mandla (ST)
	15-Balaghat
	16-Chhindwara
MAHARASHTRA	1-Nandurbar (ST)
	2-Dhule
	20-Dindori (ST)
	21-Nashik
	22-Palghar (ST)
	23-Bhiwandi
	24-Kalyan
	25-Thane
	26-Mumbai North
	27-Mumbai North-West
	28-Mumbai North-East
	29-Mumbai North-Central
	30-Mumbai South-Central
	31-Mumbai South
	33-Maval
36-Shirur	
38-Shirdi (SC)	
ODISHA	5-Mayurbhanj (ST)
	6-Balasore
	7-Bhadrak (SC)
	8-Jajpur (SC)
	15-Kendrapara
	16-Jagatsinghpur (SC)
RAJASTHAN	12-Tonk-Sawai Madhopur
	13-Ajmer
	15-Pali
	16-Jodhpur
	17-Barmer
	18-Jalore
	19-Udaipur (ST)
	20-Banswara (ST)
21-Chittorgarh	

STATE	PARLIAMENTARY CONSTITUENCY
(1)	(2)
RAJASTHAN	22-Rajsamand
	23-Bhilwara
	24-Kota
	25-Jhalawar-Baran
UTTAR PRADESH	27-Shahjahanpur (SC)
	28-Kheri
	31-Hardoi (SC)
	32-Misrikh (SC)
	33-Unnao
	40-Farrukhabad
	41-Etawah (SC)
	42-Kannauj
	43-Kanpur
	44-Akbarpur
	45-Jalaun (SC)
	46-Jhansi
	47-Hamirpur
WEST BENGAL	10-Baharampur
	12-Krishnanagar
	13-Ranaghat (SC)
	38-Bardhaman Purba (SC)
	39-Bardhaman-Durgapur
	40-Asansol
	41-Bolpur (SC)
	42-Birbhum

[F. No. H-11024(1)/2019-Leg.II]

(Dr. ReetaVasishta)

Additional Secretary to the Government of India.

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली -110001, दिनांक 2 अप्रैल, 2019/12 चैत्र, 1941 (शक)

सं.464/ईपीएस/2019(4)—यतः, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उपधारा(2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना जिसे भारत के राजपत्र में 2 अप्रैल, 2019 (मंगलवार) में प्रकाशित करवाया गया, के द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में स्तंभ (1) में उल्लिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा की गई है कि उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाएं;

2. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्वारा -

(अ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निम्नलिखित निर्धारित करता है:

(क) नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख - 09 अप्रैल, 2019 (मंगलवार)

(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख - 10 अप्रैल, 2019 (बुधवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख - 12 अप्रैल, 2019 (शुक्रवार)

(घ) नीचे की अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को ऐसी तारीख के रूप में निर्धारित करता है जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा ; और

(ङ) ऐसी तारीख जिससे पहले उपर्युक्त सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा - 27 मई, 2019 (सोमवार); और

(आ) उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट समय को, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट तदनुसूची प्रविष्टि के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों में, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए, इसके कॉलम (3) में ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

अनुसूची

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, मतदान की तारीख एवं समय

चरण-IV

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / विधान सभा क्षेत्र का सेगमेंट	मतदान की तारीख	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
बिहार	14- दरभंगा	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	22- उजियारपुर	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	23- समस्तीपुर (अ.जा)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	24- बेगूसराय	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / विधान सभा क्षेत्र का सेगमेंट	मतदान की तारीख	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
बिहार	28- मुंगेर	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
झारखंड	4-चतरा	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
	12-लोहरदगा (अ.ज.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
	13-पलामू (अ.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
मध्य प्रदेश	11-सीधी	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	12-शहडोल (अ.ज.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	13-जबलपुर	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	14-मण्डला (अ.ज.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	15-बालाघाट		
	108- वैहर (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
	109- लांजी वि.स.नि.क्षे.	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
	110-परसवाड़ा वि.स.नि.क्षे.	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 04:00 बजे तक
	111- बालाघाट वि.स.नि.क्षे.	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	112- वारासिवनी वि.स.नि.क्षे.	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	113- कटंगी वि.स.नि.क्षे.	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	114- बरघाट (अ.ज.जा.) वि.स.नि.क्षे.	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	115- सिवनी वि.स.नि.क्षे.	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	16-छिन्दवाड़ा	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / विधान सभा क्षेत्र का सेगमेंट	मतदान की तारीख	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
महाराष्ट्र	1-नन्दुरबार (अ.ज.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	2-धुले	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	20-दिन्डोरी (अ.ज.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	21-नाशिक	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	22-पालघर (अ.ज.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	23-भिवंडी	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	24-कल्याण	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	25-ठाणे	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	26-मुम्बई उत्तर	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	27-मुम्बई उत्तर-पश्चिम	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	28-मुम्बई उत्तर-पूर्व	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	29-मुम्बई उत्तर-मध्य	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	30-मुम्बई दक्षिण-मध्य	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	31-मुम्बई दक्षिण	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	33-मावल	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
36- शिरूर	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक	
38- शिरडी (अ.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक	
ओडिशा	5- मयूरभंज (अ.ज.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / विधान सभा क्षेत्र का सेगमेंट	मतदान की तारीख	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
ओडिशा	6- बालासोर	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	7- भाद्रक (अ.जा)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	8- जाजपुर (अ.जा)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	15-केन्द्रपाड़ा	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	16-जगतसिंहपुर (अ.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
राजस्थान	12-टोंक-सवाई माधोपुर	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	13-अजमेर	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	15-पाली	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	16-जोधपुर	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	17-बाड़मेर	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	18-जालोर	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	19-उदयपुर (अ.ज.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	20-बांसवाड़ा (अ.ज.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	21-चित्तौड़गढ़	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	22-राजसमन्द	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	23-भीलवाड़ा	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	24-कोटा	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	25-झालावाड़-बारां	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / विधान सभा क्षेत्र का सेगमेंट	मतदान की तारीख	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
उत्तर प्रदेश	27-शाहजहांपुर (अ.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	28-खीरी	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	31-हरदोई (अ.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	32-मिश्रिख (अ.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	33-उन्नाव	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	40-फर्रुखाबाद	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	41-इटावा (अ.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	42-कन्नौज	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	43-कानपुर	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	44-अकबरपुर	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	45-जालौन (अ.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	46-झांसी	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	47-हमीरपुर	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
पश्चिम बंगाल	10-बहरामपुर	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	12-कृष्णानगर	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	13-रणघाट (अ.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	38-बर्धमान पूर्व (अ.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	39-बर्धमान दुर्गापुर	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / विधान सभा क्षेत्र का सेगमेंट	मतदान की तारीख	मतदान का समय
(1)	(2)	(3)	(4)
	40-आसनसोल	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	41-बोलपुर (अ.जा.)	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक
	42-बीरभूम	29 अप्रैल, 2019 (सोमवार)	पूर्वा. 07:00 बजे से अपरा. 06:00 बजे तक

आदेश से,
(सुमित मुखर्जी)
प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001/ Dated: the 2nd April, 2019/12Chaitra 1941 (Saka)

No. 464/EPS/2019(4)—**WHEREAS**, the President of India has, by notification issued under sub-section (2) of Section 14 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on the 2nd April, 2019 (Tuesday), been pleased to call upon each of the parliamentary constituencies, specified in column (2) of the Schedule below, in the States or Union Territories mentioned in column (1), of the Schedule to elect members to the House of the People, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder;

2. **Now, therefore**, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

- (A) **Appoints**, with respect to the said election, from each of the parliamentary constituencies specified in the said Schedule,
- the 9th April, 2019 (Tuesday), as the last date for making nominations;
 - the 10th April, 2019 (Wednesday), as the date for scrutiny of nominations;
 - the 12th April, 2019 (Friday), as the last date for withdrawal of candidatures;
 - the date specified in column (3) of the SCHEDULE below, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken in the parliamentary constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule; and
 - the 27th May, 2019 (Monday), as the date before which the election shall be completed in all the above mentioned parliamentary constituencies; and
- (B) **Fixes the hours** specified in column (4) of the said Schedule, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, on the date specified against such constituency in column (3) thereof, for the above election.

SCHEDULE
Parliamentary Constituencies, Dates and Hours of Poll
PHASE-IV

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/Assembly Constituency segment	Date of Poll	Hours of Poll	
(1)	(2)	(3)	(4)	
BIHAR	14-Darbhanga	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	22-Ujiarpur	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	23-Samastipur (SC)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	24-Begusarai	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	28-Munger	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM	
JHARKHAND	4-Chatra	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 04:00 PM	
	12-Lohardaga (ST)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 04:00 PM	
	13-Palamu (SC)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 04:00 PM	
MADHYA PRADESH	11-Sidhi	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	12-Shahdol (ST)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	13-Jabalpur	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	14-Mandla (ST)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	15-Balaghat PC			
	108- Baihar (ST) AC	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 04:00 PM	
	109- Lanji AC	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 04:00 PM	
	110- Paraswada AC	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 04:00 PM	
	111- Balaghat AC	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	112- Waraseoni AC	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	113- Katangi AC	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	114- Barghat (ST) AC	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	115- Seoni AC	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM	
	16-Chhindwara PC	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM	

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/Assembly Constituency segment	Date of Poll	Hours of Poll
(1)	(2)	(3)	(4)
MAHARASHTRA	1-Nandurbar (ST)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	2-Dhule	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	20-Dindori (ST)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	21-Nashik	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	22-Palghar (ST)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	23-Bhiwandi	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	24-Kalyan	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	25-Thane	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	26-Mumbai North	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	27-Mumbai North-West	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	28-Mumbai North-East	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	29-Mumbai North-Central	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	30-Mumbai South-Central	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	31-Mumbai South	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	33-Maval	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
36-Shirur	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM	
38-Shirdi (SC)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM	
ODISHA	5-Mayurbhanj (ST)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	6-Balasore	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	7-Bhadrak (SC)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	8-Jajpur (SC)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	15-Kendrapara	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	16-Jagatsinghpur (SC)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/Assembly Constituency segment	Date of Poll	Hours of Poll
(1)	(2)	(3)	(4)
RAJASTHAN	12-Tonk-Sawai Madhopur	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	13- Ajmer	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	15- Pali	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	16- Jodhpur	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	17- Barmer	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	18- Jalore	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	19- Udaipur (ST)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	20-Banswara (ST)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	21- Chittorgarh	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	22- Rajsamand	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	23- Bhilwara	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	24- Kota	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	25-Jhalawar- Baran	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
UTTAR PRADESH	27-Shahjahanpur (SC)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	28-Kheri	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	31-Hardoi (SC)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	32-Misrikh (SC)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	33-Unnao	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	40-Farrukhabad	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	41-Etawah (SC)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	42-Kannauj	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	43-Kanpur	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	44-Akbarpur	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
45-Jalaun (SC)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM	

State/Union Territory	Parliamentary Constituency/Assembly Constituency segment	Date of Poll	Hours of Poll
(1)	(2)	(3)	(4)
UTTAR PRADESH	46-Jhansi	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	47-Hamirpur	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
WEST BENGAL	10-Baharampur	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	12-Krishnanagar	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	13-Ranaghat (SC)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	38- Bardhaman Purba (SC)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	39- Bardhaman Durgapur	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	40-Asansol	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	41-Bolpur (SC)	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM
	42-Birbhum	29th April, 2019 (Monday)	07:00 AM to 06:00 PM

By order,
Sumit Mukherjee,
Principal Secretary to the
Election Commission of India.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 512-571+50 डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>